



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 189 राँची, बुधवार,

7 मार्च, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

आदेश

13 फरवरी 2018

संख्या-03नि0पं0-31/2016 रा0नि0आ0 192 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है

कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, गिरिडीह के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65 'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

| क्रमांक | जिला | निर्वाचन क्षेत्र | नाम एवं पता | कारण |
|---------|---------|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | गिरिडीह | VII गिरिडीह-(03) | कविता देवी, ग्रा0+पो0-चन्दौरी, पंचायत-चन्दौरी, प्रखण्ड-तिसरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 2 | | VII गिरिडीह-(03) | सविता देवी, ग्राम-चन्दौरी, पंचायत-चन्दौरी, प्रखण्ड-तिसरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 3 | | VII गिरिडीह-(03) | संगीता देवी, ग्राम-चन्दौरी, पंचायत-चन्दौरी, प्रखण्ड-तिसरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 4 | | VII गिरिडीह-(04) | नरेश कुमार शर्मा, ग्राम-जमुनियाटांड, पंचायत-तिसरी, प्रखण्ड-तिसरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 5 | | VII गिरिडीह-(04) | मो0 सन्नाउल्लाह, ग्राम-घाघरा, पंचायत-सिंघो, प्रखण्ड-तिसरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| 6 | VII गिरिडीह-(06) | आशा सिंह, ग्राम-बरवाडीह, पंचायत-मारूडीह, प्रखण्ड-देवरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 7 | VII गिरिडीह-(06) | रेणु देवी, ग्राम-चितरोकुरहा, पंचायत-सलैयडीह उर्फ खोरोडीह, प्रखण्ड-देवरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 8 | VII गिरिडीह-(07) | जलील अंसारी, ग्राम-बज गुन्दा, पंचायत-परसाटांड, प्रखण्ड-देवरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 9 | VII गिरिडीह-(07) | मालती देवी, ग्राम-असको, पंचायत-असको, प्रखण्ड-देवरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 10 | VII गिरिडीह-(08) | अकबर अंसारी, ग्राम-झगरूडीह, चतरो, पंचायत-चहाल, प्रखण्ड-देवरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 11 | VII गिरिडीह-(08) | कारु राम, ग्राम-महेशियादिघी, पंचायत-कोसोगोन्दोदिघी, प्रखण्ड-देवरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 12 | VII गिरिडीह-(08) | दनियाल मरांडी, ग्राम-दुलाभीठा, पंचायत-हरियाडीह, प्रखण्ड-देवरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 13 | VII गिरिडीह-(08) | महादेव दुबे, ग्राम-महेशियादिघी, पंचायत-कोसोगोन्दोदिघी, प्रखण्ड-देवरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 14 | VII गिरिडीह-(08) | श्रीराम सिंह, ग्राम-चतरो, पो0-चतरो, पंचायत-चतरो, प्रखण्ड-देवरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 15 | VII गिरिडीह-(10) | कुंती देवी, ग्राम-बलगो, पंचायत-बलगो, प्रखण्ड-जमुआ, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |

झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 7 मार्च, 2018

| | | | |
|----|------------------|--|--|
| 16 | VII गिरिडीह-(12) | सरिता कुमारी, ग्राम-कुरुमडीह, पंचायत-चरधरा, प्रखण्ड-जमुआ, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 17 | VII गिरिडीह-(13) | निलम देवी, ग्राम-जरसौती, पंचायत-पिन्डरसोत, प्रखण्ड-जमुआ, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 18 | VII गिरिडीह-(15) | मुनी देवी, ग्राम-भरौना, पंचायत-महेशमरवा, प्रखण्ड-धनवार, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 19 | VII गिरिडीह-(15) | मीना देवी, ग्राम-संतरायडीह बांधी, धनवार, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 20 | VII गिरिडीह-(15) | शबनम आरा, ग्राम-मामाअहरी, गरजासारण, धनवार, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 21 | VII गिरिडीह-(17) | फरजाना निशबला प्रवीन, ग्राम-डुमरडीहा, पंचायत-डुमरडीहा, प्रखण्ड-धनवार, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 22 | VII गिरिडीह-(17) | मनोरमा देवी, ग्राम-बाघमारा, पो0-तारानाखो, पंचायत-धनैपुरा, प्रखण्ड-धनवार, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 23 | VII गिरिडीह-(17) | शहनाज खातुन, ग्राम-अरखाँगो, पंचायत-अरखाँगो, प्रखण्ड-धनवार, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 24 | VII गिरिडीह-(21) | मोहम्मद इमामुल, पिता-ताज अहमद ग्राम-कुबरी, पो0-जवाहर नगर, ग्राम पं0-केन्दुआ, प्रखण्ड-बिरनी | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 25 | VII गिरिडीह-(21) | मो0-हैदर अंसारी, पिता-मो0 इमामुल अंसारी, ग्राम-कुबरी, पो0-जवाहर नगर, ग्राम पं0-केन्दुआ, प्रखण्ड-बिरनी | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |

| | | | |
|----|------------------|--|--|
| 26 | VII गिरिडीह-(22) | जुगेशवरी देवी, पति-श्याम सुन्दर वर्मा, ग्राम-सुईयाडीह, प्रखण्ड-बिरनी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 27 | VII गिरिडीह-(22) | पुजा देवी, पति-जय नारायण बर्मा, ग्राम-पोखरिया, पो0-बलिया, प्रखण्ड-बिरनी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 28 | VII गिरिडीह-(22) | रसुली बीबी, पति-जुमन अंसारी, ग्राम-बलगो, पो0-खुरजियो, प्रखण्ड-बिरनी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 29 | VII गिरिडीह-(22) | विमला देवी, पति-प्रभु राम, ग्राम-पेशम, प्रखण्ड-बिरनी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 30 | VII गिरिडीह-(22) | शिल्पी कुमारी माथुर, पिता-राजेन्द्र राम, ग्राम-बलिया, ग्राम पं0-बलिया, प्रखण्ड-बिरनी | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 31 | VII गिरिडीह-(23) | सलमा खातुन, पिता-मो0 सलीम अख्तर, ग्राम-मोकामो, प्रखण्ड-सरिया, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 32 | VII गिरिडीह-(23) | सुखदेव मरांडी, पिता-स्व0छट्टु मांडी, ग्राम-खेशकरी, ग्राम पं0-माकोमो, प्रखण्ड-सरिया | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 33 | VII गिरिडीह-(24) | अविनाश कुमार उर्फ सुदामा दास, पिता-गुलाब दास, ग्राम-नावाडीह, प्रखण्ड-सरिया, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 34 | VII गिरिडीह-(24) | प्रमोद कुमार वर्मा, पिता-सुर्यनारायण महतो, ग्राम-पोटमा, प्रखण्ड-सरिया, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 35 | VII गिरिडीह-(25) | गोपाल कृष्ण पांडे, पिता-दामोदर पांडे, ग्राम-बगड़ो, प्रखण्ड-सरिया, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |

झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 7 मार्च, 2018

| | | | |
|----|------------------|--|--|
| 36 | VII गिरिडीह-(26) | आइना देवी, पति-विरेन्द्र प्रसाद, ग्राम-धरगुल्ली, प्रखण्ड-बगोदर, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 37 | VII गिरिडीह-(26) | किरण देवी, पति-शत्रुधन प्र० मंडल, ग्राम+पता-अटका, प्रखण्ड-बगोदर | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 38 | VII गिरिडीह-(26) | मालती देवी, पति-राम स्वरूप तिवारी, ग्राम-अटका, ग्राम पं०-अटका पूर्वी, प्रखण्ड-बगोदर, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 39 | VII गिरिडीह-(28) | प्रवीण कुमार, पिता-जगन्नाथ साव, ग्राम पं०-खेतको, प्रखण्ड-बगोदर, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 40 | VII गिरिडीह-(30) | किरण देवी, पति-ऋषिकेश महतो, ग्राम-हुण्डरो, ग्राम पंचायत-अतकी, प्रखण्ड-डुमरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 41 | VII गिरिडीह-(30) | मासुम प्रवीण, पति-रहमान अंसारी, ग्राम-अतकी, पो०-चीनो, ग्राम पंचायत-अतकी, प्रखण्ड-डुमरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 42 | VII गिरिडीह-(33) | उस्मान अंसारी, पिता-इस्मायल अंसारी, ग्राम-असनासिंघा, ग्राम पंचायत-बालुटुण्डा, प्रखण्ड-डुमरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 43 | VII गिरिडीह-(33) | शमीम अंसारी, पिता-इद्रीस अंसारी, ग्राम-असनासिंघा, ग्राम पंचायत-बालुटुण्डा, प्रखण्ड-डुमरी, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 44 | VII गिरिडीह-(34) | रेखा देवी, पति-सुरेश मरन्डी, ग्राम-शहरपुरा, पो०-हरलाडीह, ग्राम पंचायत-हरलाडीह, प्रखण्ड-पीरटाँड़, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |

| | | | |
|----|------------------|--|--|
| 45 | VII गिरिडीह-(35) | सीमा किस्कु, पति-मंगु किस्कु, ग्राम-झरहा, ग्राम पंचायत-कुम्हरलालो, प्रखण्ड-पीरटाँड़, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 46 | VII गिरिडीह-(36) | उर्मिला देवी, ग्राम-जीतपुर, पो0-हंडाडीह, पंचायत-जीतपुर, प्रखण्ड-गिरिडीह, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 47 | VII गिरिडीह-(36) | सावित्री देवी, ग्राम-कोल्हनाटाँड़, पंचायत-बदगुन्दा प्रखण्ड-गिरिडीह, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 48 | VII गिरिडीह-(37) | तेजनारायण वर्मा, ग्राम-चन्दनडीह, पंचायत-परसाटाँड़, प्रखण्ड-गिरिडीह, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 49 | VII गिरिडीह-(37) | मैमुन खातुन, ग्राम-तेलोडीह हंडाडीह, गिरिडीह, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 50 | VII गिरिडीह-(41) | दिलीप बैठा, ग्राम-हरवाडीह, पो0-मोतीलेदा, पंचायत-कर्णपुरा, प्रखण्ड-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 51 | VII गिरिडीह-(42) | ममता तिवारी, ग्राम-भंवरडीह, पंचायत-गोलगो, प्रखण्ड-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 52 | VII गिरिडीह-(42) | रुकसाना खातुन, ग्राम-हरखुडीह, पंचायत-छोटकी खरगडीहा, प्रखण्ड-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 53 | VII गिरिडीह-(42) | सुमीत्रा देवी, ग्राम-हरिला, पंचायत-हरिला, प्रखण्ड-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |

झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 7 मार्च, 2018

| | | | |
|----|------------------|--|--|
| 54 | VII गिरिडीह-(42) | फुलमनी हांसदा, ग्राम-रांगामाटी, पंचायत-गोलगो, प्रखण्ड-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 55 | VII गिरिडीह-(43) | अनीता सिंह, ग्राम-मानसिंहडीह, पंचायत-बेंगाबाद, प्रखण्ड-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 56 | VII गिरिडीह-(43) | महताब खातुन, ग्राम-नावाडीह, पंचायत-चपुआडीह, प्रखण्ड-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 57 | VII गिरिडीह-(43) | सितरा खातुन, ग्राम-मोहनपुर (टिकलटो), पंचायत-झलकडीहा, प्रखण्ड-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 58 | VII गिरिडीह-(44) | सदानंद राणा, ग्राम-महेशमुण्डा, बन्धाबाद, पंचायत-बड़कीटांड, प्रखण्ड-गाण्डेय, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 59 | VII गिरिडीह-(45) | कलेश्वर मुर्मू, ग्राम-मनियाडीह, पंचायत-मेदनीसारे, प्रखण्ड-गाण्डेय, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 60 | VII गिरिडीह-(45) | देव ईश्वर सोरेन, ग्राम-महजोरी, पंचायत-डोकीडीह, प्रखण्ड-गाण्डेय, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 61 | VII गिरिडीह-(45) | श्याम किशोर हांसदा, ग्राम-मनियाडीह, पंचायत-मेदनीसारे, प्रखण्ड-गाण्डेय, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 62 | VII गिरिडीह-(46) | सुनील मुर्मू, ग्राम-चरकपथला, पंचायत-पंडरी, प्रखण्ड-गाण्डेय, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 63 | VII गिरिडीह-(47) | अंजु देवी, ग्राम-बुधुडीह, पंचायत-बुधुडीह, प्रखण्ड-गाण्डेय, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| 64 | VII गिरिडीह-(47) | पम्मी देवी, ग्राम-शिवुयाडीह, पंचायत-फुलझरिया, प्रखण्ड-गाण्डेय, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 65 | VII गिरिडीह-(47) | मजीदन वीवी, ग्राम-भदवा खुर्द, पंचायत-रसनजोरी, प्रखण्ड-गाण्डेय, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 66 | VII गिरिडीह-(28) | खगेन्द्र महतो, पिता-निरंजन महतो, ग्राम-घंघरी, प्रखण्ड-बगोदर, जिला-गिरिडीह | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।
